



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 244]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 20, 1979/अग्रहायण 29, 1901

No. 244]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 20, 1979/AGRAHAYANA 29, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अप्रत्याक्ष कर प्रभाग

सं० प्रतिअदायगी/सां० सू० 89/79

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1979

मि० सं० 602/1/79-डी ओ के —भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 1, खण्ड (1) में प्रकाशित दिनांक 8-11-1979 की सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/सां० सू०-79/79 के साथ पठित, भारत के राजपत्र, (असाधारण) के भाग 1, खण्ड (1) में प्रकाशित दिनांक 31-8-79 की सां० सू० प्रतिअदायगी/सां० सू०-58/79 में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित शुद्धियाँ करती है, अर्थात् —

“12 जुलाई 1977” शब्दों और अंकों के स्थान पर

“12 अप्रैल 1977” पढ़ें।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

INDIRECT TAXES DIVISION

NO. DRAWBACK/PN-89/79

CORRIGENDA

New Delhi, the 20th December, 1979

F. No. 602/1/79-DBK.—In the Public Notice No. DRAWBACK/PN-58/79 dated 31-8-79, published in Part I, Section (1) of the Gazette of India, (Extraordinary, read with

Public Notice No. DRAWBACK/PN-79/79 dated 8-11-1979, published in Part-I, Section (1) of the Gazette of India, Extraordinary, the Central Government hereby makes the following corrections therein, namely:—

For the words and figures “12th July, 1977” Read “12th April, 1977”.

सं० प्रतिअदायगी/सां० सू० 90/79

मि० सं० 602/1/79-डी ओ के —भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 1, खण्ड (1) में प्रकाशित दिनांक 27 अगस्त 1979 की सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/सां० सू० 57/79 में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित शुद्धियाँ करती है, अर्थात् —

1 “उप क्रम सं० 2606 के अन्तर्गत” विद्यमान शब्दों के स्थान पर “उप क्रम सं० 2606, 2626, 2700 और 2720 के अन्तर्गत” पढ़ें।

2 “जोड़ा जायगा” शब्दों के स्थान पर “प्रतिस्थापित किया जायगा” पढ़ें।

NO. DRAWBACK/PN-90/79

F. No. 602/1/79-DBK.—In the Public Notice No. DRAWBACK/PN 57/79 dated the 27th August, 1979, published in Part I, Section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, the Central Government hereby makes the following corrections therein, namely:—

1. For the existing words "under Sub-Serial No. 2606" Read "under Sub-Serial Nos. 2606, 2626, 2706 and 2720".

2. For the word "added" Read the word "substituted."

सं० प्रतिप्रदायगी/सां० सू० 91/79

### सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1979

सि० सं० 602/1/79-डी बी के :—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिप्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायगी/सां० सू० 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

1. उप क्रम सं० 2502 की मद (क) की उप मद (ग) के समाने वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जायँगी, अर्थात् :—

(ग) एक्रिलिक तन्तु अन्तर्वस्तु ।

(i) होजरी क्वालिटी के सूत में 50.80 रु० (केवल पचास रुपये जिसमें हाथ की बुनाई अस्सी पैसे) प्रति किलो ग्राम । का सूत शामिल नहीं है ।

(ii) अन्य 37.20 रु० (केवल सैंतीस रुपये बीस पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।

बशर्ते केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत, तन्तुओं पर संदर्भ शुल्क में कोई रिबेट नहीं लिया गया हो ।

2. उप क्रम सं० 2503 के खण्ड (ग) की मद (i) की उप मद (घ) के समाने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जायँगी अर्थात् :—

(घ) एक्रिलिक तन्तु ।

(i) होजरी क्वालिटी के सूत 52.95 रु० (केवल बावन रुपये में, जिसमें हाथ की बुनाई पचानवे पैसे) प्रति किलो ग्राम । का सूत शामिल नहीं है ।

(ii) अन्य 38.80 रु० (केवल अड़तीस रुपये अस्सी पैसे) प्रति किलो ग्राम

बशर्ते केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत, तन्तुओं पर शुल्क में कोई रिबेट नहीं लिया गया हो ।

यह सार्वजनिक सूचना नवम्बर, 1979 के प्रथम दिवस से लागू हुई समझी जायगी ।

महेश कुमार, भवर सचिव

NO. DRAWBACK/PN-91/79

### PUBLIC NOTICE

Now Delhi, the 20th December, 1979

F. No. 602/1/79-DBK.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules 1971 (Notification No. 52/F.No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971), 1971 the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 as amended from time to time :—

1. For the existing entries against sub-item (c) of item (A) of Sub-Serial No. 2502, the following entries shall be substituted, namely:—

(c) Acrylic fibre content.

(i) In the yarn of Hosiery quality excluding hand knitting yarn. Rs. 50.80 (Rupees fifty and paise eighty only) per kg.

(ii) Others Rs. 37.20 (Rupees thirty seven and paise twenty only) per kg.

Provided that no rebate of duty paid on fibres has been obtained under the Central Excise Rules, 1944.

2. For the existing entries against sub-item (d) of item (i) of clause (c) of sub-serial No. 2503, the following entries shall be substituted, namely:—

(d) Acrylic fibre.

(i) In the yarn of Hosiery quality excluding hand knitting yarn. Rs. 52.95 (Rupees fifty two and paise ninety five only) per kg.

(ii) Others. Rs. 38.80 (Rs. Thirty-eight and paise eighty only) per kg.

Provided that no rebate of duty on fibres has been obtained under the Central Excise Rules, 1944.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of November, 1979.

MAHESH KUMAR, Under Secy.